



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 14]

नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 2—अप्रैल 8, 2011 (चैत्र 12, 1933)

No. 14]

NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 2—APRIL 8, 2011 (CHAITRA 12, 1933)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by
Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक

मुंबई-400001, दिनांक 8 मार्च 2011

संदर्भ : बैपवि. सं. आईबीडी. 13982/23.03.022/2010-11--भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (6) के खण्ड (क) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक इसके एतद्वारा उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची से निम्नलिखित बैंक को सम्मिलित किये जाने का निर्देश देता है :--

“स्वर बैंक”

आर. गांधी

कार्यपालक निदेशक

संदर्भ : बैपवि. सं. आईबीडी. 13983/23.03.025/2010-11--भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (6) के खण्ड (क) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक इसके एतद्वारा उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची से निम्नलिखित बैंक को सम्मिलित किये जाने का निर्देश देता है :--

“क्रेडिट सुईस ए.जी.”

आर. गांधी

कार्यपालक निदेशक

दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इण्डिया

नई दिल्ली-110002, दिनांक 14 मार्च 2011

सं. 13-सी.ए. (परीक्षा)/म/2011/II--इंस्टीट्यूट की अधिसूचना संख्या 13-सीए (परीक्षा)/म/2011 दिनांक 12 जनवरी 2011 में आंशिक परिवर्तन के तहत सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि पश्चिम बंगाल राज्य में विधान सभा चुनाव के कारण परीक्षा-पत्र संख्या-1, पी.सी.ई., उच्च लेखांकन तथा परीक्षा-पत्र संख्या-1, आई.पी.सी.ई., लेखांकन जोकि 3 मई 2011 को कोलकाता क्षेत्र-I, II तथा III में होना है, उसे स्थगित कर दिया गया है। अब यह परीक्षा अर्थात् पी.सी.ई. तथा आई.पी.सी.ई. का परीक्षा-पत्र संख्या-1, अब 18 मई 2011 को पूर्व निर्धारित समयानुसार 2 : 00 सायं से 5 : 00 सायं होगी।

सर्वसाधारण को यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त विधान सभा चुनाव के कारण परीक्षा-पत्र संख्या-4, लागत लेखांकन और वित्तीय प्रबंध, पी.सी.ई. तथा परीक्षा-पत्र संख्या-3 लागत लेखांकन और वित्तीय प्रबंध, आई.पी.सी.ई. जोकि 7 मई 2011 को आसनसोल में होनी है, स्थगित कर दिया गया है तथा यह परीक्षा अब 18 मई 2011 को पूर्व निर्धारित समयानुसार 2 : 00 सायं से 5 : 00 सायं होगी।

टी. परमासिवन

वरिष्ठ उपनिदेशक

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

नई दिल्ली-110066, दिनांक 14 मार्च 2011

सं. मा.स.प्र./ए-1(1)/2010/आर.आर./क्षे.भ.नि.आ.-II--कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 के अधिनियम 19) की धारा 5 (डी) की उपधारा 7(ए) के अंतर्गत केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, भारत सरकार से परामर्श एवं उनके अनुमोदन से एतद्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, ग्रेड-II) भर्ती नियम, 1999 में संशोधन करते हैं, यथा;

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ

ये नियम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, ग्रेड-II (संशोधित) भर्ती नियम, 2011 कहलाएंगे।

2. लागू होना

ये सरकारी राजपत्र (गजट) में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतनमान

पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण एवं उनसे संबंधित वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती का तरीका, आयु सीमा एवं अन्य योग्यताएं आदि

भर्ती का तरीका, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

5. अयोग्यताएं

कोई व्यक्ति :--

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पत्नी/पति जीवित हो, अथवा।

(ख) जिसने स्वयं की पत्नी/पति के जीवित रहते किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया हो।

उक्त पद के लिए नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। यदि केन्द्रीय बोर्ड संतुष्ट है कि विवाह के दूसरे पक्ष अथवा उनकी स्वीय विधि (पर्सनल लॉ) में ऐसे विवाह की अनुमति है और ऐसा करने के अन्य कारण हैं जो उस व्यक्ति को इस नियम से छूट प्रदान करते हैं।

6. शिथिल करने की शक्ति

जहां केन्द्रीय बोर्ड का विचार है कि ऐसा करना उचित है तो, आदेश द्वारा, कारणों को लिखित रूप में देते हुए, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से परामर्श करते हुए, इन नियमों के किसी उपबंध से किसी भी वर्ग अथवा श्रेणी के व्यक्ति को राहत दे सकता है।

7. प्रतिबंध

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिकों एवं अन्य विशेष श्रेणी के व्यक्तियों को, केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों द्वारा आरक्षण, आयु सीमा में शिथिलता तथा दी गई अन्य छूट पर इन नियमों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

एस. चटर्जी
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त एवं सचिव,
केन्द्रीय न्यासी बोर्ड,
कर्मचारी भविष्य निधि

(1) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, ग्रेड-II) भर्ती नियम 1999, जीएसआर संख्या 284 दिनांक 30.08.1999 द्वारा अधिसूचित, भारत के राजपत्र खंड-II, भाग-3, उपभाग (1) दिनांक 04.09.1999 में प्रकाशित।

(2) भारत के राजपत्र के खंड-III, भाग-4 में दिनांक 27.10.2001 को अधिसूचना संख्या पी-IV/1(8)99 में संशोधित।

अनुसूची

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, ग्रेड-II के पद हेतु भर्ती नियम

- | | |
|--|---|
| 1. पदनाम | क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, ग्रेड-II |
| 2. पदों की संख्या | 204 (2011) कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय |
| 3. वर्गीकरण | ग्रुप 'ए' गैर-अनुसचिवीय |
| 4. वेतनमान | 15,600--39,100/- रुपये वेतन बैंड-3, ग्रेड वेतन 6,000/- रुपये |
| 5. क्या यह चयन पद है अथवा गैर चयन पद | चयन एवं वरिष्ठता |
| 6. सीधी भर्ती उम्मीदवारों हेतु आयु सीमा | लागू नहीं |
| 7. क्या सेवा के अतिरिक्त वर्ष की सी.सी.एस. (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत अनुमति है | लागू नहीं |
| 8. सीधी भर्ती उम्मीदवारों के लिए आवश्यक शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं | लागू नहीं |
| 9. क्या सीधी भर्ती उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत हुए अधिकारियों पर भी लागू होंगी। | लागू नहीं |
| 10. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है | लागू नहीं |
| 11. भर्ती की पद्धति, क्या सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन (absorption) द्वारा है तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत। | पदोन्नति द्वारा, इसके अभाव में प्रतिनियुक्ति द्वारा |
| 12. पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की स्थिति में किस ग्रेड से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा। | पदोन्नति: सहायक भविष्य निधि आयुक्त के पद पर 15,600--39,100/- रु. के वेतनमान, वेतन बैंड-3 में रु. 5,400/- ग्रेड वेतन सहित 5 वर्ष की नियमित सेवा। |

टिप्पणी : यहां पदोन्नति के लिए अर्हक/पात्रता सेवा पूरी करने वाले कनिष्ठों पर विचार किया जाए, वहीं वरिष्ठों पर भी विचार किया जाए बशर्ते कि उनकी अर्हक/पात्रता सेवा आवश्यक अर्हक/पात्रता सेवा से आधी अथवा दो वर्ष तक, जो भी कम हो, से कम न हो तथा उन्होंने अगले उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक अपने कनिष्ठों के साथ ही पूरी कर ली हो जो पहले ही अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर चुके हों।

प्रतिनियुक्ति :

- (i) भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ सावधिक वेतनमान वाले अधिकारी; अथवा
- (ii) केन्द्र/राज्य सरकार के अंतर्गत समान पद वाले अधिकारी; अथवा 15,600--39,100/- रु. के वेतन बैंड, पी.बी.-3 में रु. 5,400/- अथवा समकक्ष ग्रेड वेतन के पदों पर 5 वर्ष की सेवा

फीडर वर्ग के विभागीय अधिकारी जोकि पदोन्नति के सीधे क्रम में हैं वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे। समान संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से पूर्व के अन्य संवर्ग-बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

13. यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना किस प्रकार की है।

ग्रुप ए विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति एवं स्थायीकरण के विचार हेतु)

- | | |
|---|---------|
| (क) केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त | अध्यक्ष |
| (ख) अपर सचिव, भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय | सदस्य |
| (ग) संयुक्त सचिव, भारत सरकार,
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय | सदस्य |

14. वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती हेतु संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाएगा।

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लेना आवश्यक नहीं है।

एस. चटर्जी

केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त एवं सचिव,
केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 14 फरवरी 2011

सं. एन-15/14/17/13/2010-यो. एवं वि--कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, (1948 का 34) की धारा-46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 मार्च, 2011 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा पंजाब कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ पंजाब राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात् :--

क्रमांक	गांव का नाम	हदबस्त संख्या	तहसील	जिला
1.	भोखरा	160	गुनियाणा	बठिण्डा
2.	गिलपट्टी	71	बठिण्डा	बठिण्डा

आर. सी. शर्मा
निदेशक (यो. एवं वि.)

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्

नई दिल्ली, दिनांक मार्च 2011

सं. 4-90/2009 आयु. स्नातकोत्तर विनियम--भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 36 की उपधारा (1) के खंड (झ), (ज) और (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति से भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (स्नातकोत्तर आयुर्वेद शिक्षा) विनियम, 2005 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :--(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (स्नातकोत्तर आयुर्वेद शिक्षा) (संशोधन) विनियम, 2011 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

क. धारा 13 की उपधारा 9 तथा धारा 17 की उपधारा 7 को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जायेगा :--

13(9) अस्पताल में शय्याओं के अधिभोग का वार्षिक अनुपात 50 प्रतिशत से अधिक होगा।

17(7) अस्पताल में शय्याओं के अधिभोग का वार्षिक अनुपात 50 प्रतिशत से अधिक होगा।

ख. धारा 15 को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जायेगा :--

(15) शिक्षक छात्र अनुपात :--शिक्षक छात्र अनुपात इस प्रकार होगा कि स्नातकोत्तर शिक्षकों की संख्या और प्रत्येक वर्ष में प्रविष्ट स्नातकोत्तर छात्रों की संख्या का अनुपात आचार्य के मामले में 1:3, उपाचार्य के मामले

में 1:2 तथा प्राध्यापक के लिये 1:1 का होगा। प्रतिवर्ष प्रति विषय की अधिकतम संख्या 6 से अधिक नहीं होगी।

प्रेमराज शर्मा
सचिव सह निबन्धक

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 36 के उपबन्ध (झ) और (ज) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति से "भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (भारतीय चिकित्सा में शिक्षा के न्यूनतम मानक) (संशोधन) विनियम, 1989, 2005 तथा नदनन्तर 2011" में आगे संशोधन करते हुये निम्न विनियमों का निर्माण करती है, यथा :--

1. (1) इन विनियमों को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (भारतीय चिकित्सा में शिक्षा के न्यूनतम मानक) (संशोधन) विनियम, 2011 कहा जायेगा।

(2) ये विनियम भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. टिप्पणी शीर्षक के पैराग्राफ 14 के अन्तर्गत निम्नलिखित को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जायेगा :--

"टिप्पणी संबंधित विषय में स्नातकोत्तर अर्हताधारी अभ्यर्थी की अनुपस्थिति में व्याख्याता/सहायक प्राध्यापक के पद हेतु निम्नलिखित विषयों, जैसा कि उन विषयों के सामने उल्लिखित है, के अभ्यर्थी पात्र होंगे :--

विषय	स्नातकोत्तर शिक्षण
1. स्वस्थवृत्त	1. कायचिकित्सा
2. अगदतंत्र	1. द्रव्यगुण/रसशास्त्र
3. रोग विज्ञान	1. कायचिकित्सा
4. रचना शरीर	1. शल्य
5. क्रिया शरीर	1. संहिता सिद्धांत
6. शालाक्य	1. शल्य
7. पंचकर्म	1. कायचिकित्सा
8. बाल रोग	1. प्रसूति एवं स्त्रीरोग/कायचिकित्सा
9. कायचिकित्सा	1. मानस रोग

क. सहबद्ध विषयों के प्रावधान को पांच वर्षों के लिये अनुमति दी जायेगी।

ख. पिछले विनियमों के आधार पर पूर्व में जिन शिक्षकों को पात्र माना गया था, उन्हें संशोधन के आधार पर अपात्र नहीं माना जायेगा।

प्रेमराज शर्मा
सचिव सह निबन्धक

RESERVE BANK OF INDIA

Mumbai-400001, the 8th March 2011

No. DBOD.IBD. No. 13982/23.03.022/2010-11—In pursuance of Clause (a) of sub-section (6) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India hereby directs the inclusion in the Second Schedule to the said Act of the following bank namely:

"Sberbank"

R. GANDHI
Executive Director

No. DBOD.IBD. No. 13983/23.03.025/2010-11—In pursuance of Clause (a) of sub-section (6) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India hereby directs the inclusion in the Second Schedule to the said Act of the following bank namely:

"Credit Suisse A.G"

R. GANDHI
Executive Director

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS
OF INDIA

New Delhi, the 14th March 2011

No. 13-CA(Exam)/M/2011/II—In partial modification of the Institute's Notification No. 13-CA(Exam)/M/2011 dated 12th January, 2011, it is notified for general information that in view of the Election to the West Bengal State Legislative Assembly, Paper-1, 'Advanced Accounting' of Professional Competence Examination and Paper-1, 'Accounting' of Integrated Professional Competence Examination Scheduled to be held on Tuesday, the 3rd May, 2011 at Kolkata Zone-I, Zone-II and Zone-III centres stand postponed and the examination in the said papers shall now be held at Kolkata Zone-I, Zone-II and Zone-III centres on Wednesday, 18th May, 2011 at the same venues and at the same timings i.e. 2.00 PM to 5.00 PM.

It is further notified for general information that owing to the aforesaid Elections, Paper-4, 'Cost Accounting and Financial Management' of Professional Competence Examination and Paper-3, 'Cost Accounting and Financial Management' of Integrated Professional Competence Examination scheduled to be held on Saturday, the 7th May, 2011 at Asansol centre stand postponed and the examination in the said papers shall now be held at Asansol centre on Wednesday, 18th May, 2011 at the same venue and at the same timings i.e. 2.00 PM to 5.00 PM.

T. PARAMASIVAN
Sr. Dy. Director (Exams.)

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

New Delhi-110066, the 14th March 2011

No. HRD/A-1(1)2010/RR/RPFC-II—In exercise of the powers delegated by the Central Board of Trustees, Employees' Provident Fund under Sub-Section 7(a) of

section 5(D) of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (Act 19 of 1952), the Central Provident Fund Commissioner, after consultation and with the approval of Govt. of India, hereby amends the Employees' Provident Fund Organisation (REGIONAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER, GRADE-II) Recruitment Rules, 1999, namely;

1. SHORT TITLE AND COMMENCEMENT :

These rules may be called the Employees' Provident Fund Organisation, Regional Provident Fund Commissioner, Grade-II (Amendment) Recruitment Rules, 2011.

2. APPLICATION :

They shall come into force from the date of their publication in the official Gazette.

3. NUMBER OF POSTS, CLASSIFICATION AND SCALE OF PAY :

The number of Posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these Rules.

4. METHOD OF RECRUITMENT, AGE LIMIT AND OTHER QUALIFICATION ETC. :

The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said schedule.

5. DISQUALIFICATION :

No Person :-

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who having a spouse living; has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Central Board may, if satisfied that such marriage is permissible under the Personal Law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. POWER TO RELAX :

Where the Central Board is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Ministry of Labour & Employment, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. SAVINGS :

Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided

for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other Special Categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

S. CHATTERJEE
Central P. F. Commissioner and
Secretary, Central Board of Trustees,
Employees' Provident Fund

(1) Employees' Provident Fund Organisation (Regional Provident Fund Commissioner, Grade-II) Recruitment Rules, 1999, notified vide GSR No. 284 dated 30.08.1999, Published in Gazette of India Part-II, Section 3, Sub-Section (i) dated 04.09.1999.

(2) Amended in Part-III-Section-4 of the Gazette of India dated 27-10-2001 vide Notification No. P-IV/1(8)99.

THE SCHEDULE

RECRUITMENT RULES FOR THE POSTS OF REGIONAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER, GRADE-II IN EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

1. Name of the Post	Regional Provident Fund Commissioner, Grade-II
2. No. of Posts	204 (2011) Subject to variation dependent on work load.
3. Classification	Group 'A' Non-Ministerial
4. Scale of Pay	Rs. 15,600—39,100/- in PB-3 with Grade Pay of Rs. 6,600/-
5. Whether Selection Post or Non Selection	Selection-cum-seniority
6. Age Limit for Direct Recruit	Not Applicable
7. Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of CSS (Pension) Rules, 1972.	Not Applicable
8. Educational and other qualifications required for direct recruits	Not Applicable
9. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Not Applicable
10. Period of Probation, if any,	Not Applicable
11. Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by Promotion or by deputation/absorption & percentage of posts to be filled by various methods.	By promotion, failing which by deputation.
12. In Case of recruitment by Promotion/deputation/absorption, grade from which promotion/deputation/absorption to be made.	Promotion :—Assistant Provident Fund Commissioner with 5 years regular service in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- in PB-3 with Grade Pay of Rs. 5,400/-.
	Note :—where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.
	Deputation :—
	(i) Senior Time Scale officers of the Indian Administrative Service; or

13. If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.

14. Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.

- (ii) Officers under the Central/State Government holding analogous posts; or with 5 years service in posts in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- in PB-3 with Grade Pay of Rs. 5,400/- or equivalent.

The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same organisation/department shall not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

Group A Departmental Promotion Committee (for considering promotion and confirmation) :

- | | | |
|---|---|----------|
| (a) Central Provident Fund Commissioner | - | Chairman |
| (b) Addl. Secretary to the Govt. of India Ministry of Labour & Employment | - | Member |
| (c) Joint Secretary to the Govt. of India Ministry of Labour & Employment | - | Member |

Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 14th February 2011

No. N-15/14/17/13/2010-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed 1st March, 2011 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Punjab Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1955 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Punjab namely :—

Sl. No.	Name of the Village	Had Bast No.	Tehsil	District
1.	Bhokra	160	Goniana	Bhathinda
2.	Gill Patti	71	Bhathinda	Bhathinda

R. C. SHARMA
Director (P&D)

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE, NEW DELHI

New Delhi, the March 2011

No. 4-90/2009/Ay.PG Regulations—In exercise of the powers conferred by clauses (i), (j) and (k) of sub-section (1) of section 36 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970), the Central Council of Indian Medicine, with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following amendments in Indian Medicine Central Council (Postgraduate Ayurveda Education) Regulations, 2005 namely :—

1. **Short title and commencement**—(1) These regulations may be called the Indian Medicine Central Council (Postgraduate Ayurveda Education) (Amendment) Regulations, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

A. Sub-section 9 of Section 13 and sub-section 7 of Section 17 shall be substituted as under :—

13(9) The annual average bed occupancy in the hospital shall be more than 50 percent.

17(7) The annual average bed occupancy in the hospital shall be more than 50 percent.

B. The Section 15 shall be substituted as under :—

(15) Student teacher ratio :—The teacher student ratio shall be such that the number of Post Graduate teachers to the number of Post Graduate students admitted per year is maintained at 1:3 in case of Professor, 1:2 in case of Reader and 1:1 for Lecturer(s). Maximum number of students per year per speciality shall not exceed six.

P. R. SHARMA
Registrar-cum-Secretary

In exercise of the powers conferred by clauses (i) and (j) of section 36 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970), the Central Council of Indian Medicine, with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following Regulations further to amend the "Indian Medicine Central Council (Minimum Standards of Education in Indian Medicine) (Amendment) Regulations, 1989, 2005 and subsequently 2010" Namely :—

1. (1) These regulations may be called the Indian Medicine Central Council (Minimum Standards of Education in Indian Medicine) (Amendment) Regulations, 2011.
- (2) These regulations shall come into force with effect from the date of publication in the Gazette of India.

2. Under the paragraph of 14 under the heading of the Note the following shall be substituted as under :—

NOTE : In Absence of the candidate of the Post-graduate qualification in concern subject the candidate of the following subjects as mentioned against them shall be eligible for the post of Lecturer/Asst. Professor :—

Subject	Discipline Post-graduate
1. Swastha Vritta	1. Kayachikitsa
2. Agad Tantra	1. Dravyaguna/Rasashastra
3. Rog Vigyan	1. Kaya Chikitsa
4. Rachana Sharir	1. Shalya
5. Kriya Sharir	1. Samhita Siddhant
6. Shalakya	1. Shalya
7. Panchkarma	1. Kayachikitsa
8. Bal Roga	1. Prasuti & Striroga/Kayachikitsa
9. Kayachikitsa	1. Manasroga

a. The Provision of allied subject will be allowed for five years.

b. The teacher(s) who had been considered eligible in the past on the basis of previous Regulations shall not be considered ineligible on the basis of amendment.

P. R. SHARMA
Registrar-cum-Secretary